



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 1970/चैत्र 12, 1892
No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 1970/CHAITRA 12, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April 1970

S.O 1291.—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of certain members retiring on the 2nd April, 1970, on the expiration of their terms of office, are published for general information:—

DECLARATIONS

(1)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Sri Katragadda Srinivasa Rao, M/s Navayuga Films, Gandhinagar, Vijayawada-3;
2. Sri K. L. N. Prasad, 'Brindavan', Suryaraopeta, Vijayawada-2;
3. Sri Venigalla Satyanarayana, Duggirala, Tenali Taluq, Guntur District;
4. Sri V.B. Raju, House No. 3-6-643, Himayatnagar, Hyderabad-29;

5. Sri Damodaram Sanjivayya, Union Minister of Labour & Employment, New Delhi;
6. Shri Gaddam Narayana Reddy, Chairman, Zina Parishad, Adilabad, P.O. Adilabad;

have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office.

Place: Assembly buildings, Public Gardens, Hyderabad-4.

A. SHANKER REDDY,
Returning Officer."

Date: 28th March, 1970.

(2)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Assam Legislative Assembly

"In pursuance of the provisions in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, I declare that Shri Emonsing M. Sangma of Upper Chandmari P.O. Tura District Garo Hills and Shri Bipin Pal Das of Hem Chandra Road Gauhati-1, have been duly elected by the Elected Members of the Legislative Assembly Assam to fill the seats in the Council of States of the two members retiring on second April, 1970 on the expiry of their term of office.

Place: Shillong,

P. D. BARUA,

Returning Officer.

Date: 28th March, 1970.

of the Biennial Election to the Council of States
from Assam & Deputy Secretary,
Legislative Assembly Assam."

(3)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Bihar Legislative Assembly

"In pursuance of the provisions contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that:—

1. Abdul Qaiyum Ansari, 1-ChhajooBag, Patna-1.
2. Awadheshwar Prasad Sinha, Village & P.O.—Dahila, P.S.—Katra Distt.—Muzaffarpur.
3. Shrikant Mishra, Saharsa, Ward No. 3, P.O. Saharasa, Distt.—Saharsa.
4. Sitaram Singh, Village—Khushar Khas, P.O.—Mahua, Distt.—Muzaffarpur.
5. Chowdhary A. Mohammad, Village, Badia Musabani, P.O., Badia, Distt.—Singhbhum.
6. Bhola Prasad, Kishan Mazdoor Kendra, Lakhisarai, Monghyr.
7. Shishir Kumar, Babu Bazar, Arrah, Shahabad.
8. Dharam Chand Jain, Chaibasa, Distt.—Singhbhum, Bihar

have been duly elected to fill seats in that House of 8 (Eight) members retiring on 2nd April, 1970, on the expiration of their term of office.

Place: Patna.

ENAYETUR RAHMAN,

Date: The 28th March, 1970.

Returning Officer,
& Secretary, Bihar Vidhan Sabha."

(4)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Gujarat Legislative Assembly

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Shri Manubhai Mansukhlal Shah, 8, Sarvodaya Society, Surendranagar.
2. Shri Shamprasad Rupshanker Vasavada, 23, Saraswati Society, Sarkhej Road, Ellisbridge, Ahmedabad-7.

3. Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel, 78, Alkapuri, Baroda; or 18 Rajendraprasad Road, New Delhi.
4. Shri Devdattakumar Kikabhai Patel, Bartad, Post: Kharvan, Taluka: Madhuva, Distt. Surat

have been duly elected to fill the seats in that House of the four members retiring on 2nd April, 1970 on expiration of their term of Office.

Place: Ahmedabad.

D. G. DESAI,

Date: 28th March, 1970.

Returning Officer.

(5)

Biennial Election to the Council of States by the Elected Members of the Haryana Legislative Assembly

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Dev Dutt, House No. 31, Saraswati Sugar Mill Colony, Yamunanagar, District Ambala

has been duly elected to fill the seat in that House of a member retiring on the 2nd April, 1970 on the expiration of his term of office.

Place: Haryana Vidhan Sabha Secretariat,

R. K. MALHOTRA,

Returning Officer,

Vidhan Bhavan, Chandigarh-1.

Date 28th March 1970

for Binnial Election to the Council of States by the elected Members of the Haryana Legislative Assembly."

(6)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir State

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Tirath Ram Amla, Vijay Niwas, Chinar Bagh Srinagar; and

2. Mehta Om Prakash, Ward No. 1, Kishtwar.

have been duly elected to fill the seats in that House of two members retiring on 2nd April, 1970, on the expiration of their term of office.

Place: Jammu.

BANSI LAL JALALI,

Dated: 28th March, 1970.

Returning Officer for Election to the Council of States, 1970".

(7)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Kerala.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. S. Kumaran, House No. 941, Thampanur, Trivandrum.

2. K. Chandrasekharan, Advocate, Ernakulam, Cochin-11.

3. Mathew Kurian, Director, Indian School of Social Sciences, Vanchiyoore, Trivandrum.

have been duly elected to fill the seats in that House of three members retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office.

Place: Trivandrum,

DR. R. PRASANNAN,

Date: 28th March, 1970.

Returning Officer."

(8)

Biennial Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Shri Bhawaniprasad Tiwari, 1368, Wright Town, Jabalpur (M.P.).
2. Shri Chakrapani Jagannath Prasad Shukla Mukam & Post Balodabazar, District Raipur.
3. Shri Vijaya Bhusan Deosharan, Aaram Niwas, Jashpur Nagar, Distt. Raigarh (M.P.).
4. Sawaisingh Mohabbat Singh, Tagore Marg, Barnagar, Distt., Ujjain (M.P.).
5. Balaram Das Durgadas, Nehru Basti, Gurh Road, Rewa (M.P.).
6. Sar. Ku. Sambhajirao Angre Chandroji, Angre Ki Goth, Post Lashkar (Gwallor) (M.P.)

have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on the 2nd April, 1970 on the expiration of their terms of office.

Place: Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhavan,
Bhopal,

MADAN GOPAL,
Returning Officer."

Date: 18th March, 1970.

(9)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Maharashtra

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Chinai, Babubhai Maneklal, Municipal House No. 149, St. James Court, Netaji Subhash Road, Bombay-1.
2. Dharla, Mohan Manikchand, House No. 2064, Vijayanagar Colony, Poona No. 30.
3. Bobade, Shankarrao Bajirao, House No. 376, Ward No. 26, Khamgao (Buldhana).
4. Goray, Narayan Ganesh, 1813, Sadashiv Peth, Poona-30.
5. Kulkarni, Arvind Ganesh, House No. 28/2, Shivaji Nagar, Sangli.
6. Sardesai, Shrinivas Ganesh, 497 D, Rupraj, Sardar Vallabhbhai Patel Road, Bombay-4

have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office.

Place: Council Hall,
Bombay-1.
Date: 25th March, 1970.

A. B. PALEKAR,
Deputy Secretary,
Maharashtra Legislature
Secretariat and
Returning Officer."

(10)

Biennial Election to the Council of States by the Elected Members of the Mysore Legislative Assembly.

"In pursuance of section 66 of the Representation of the People Act, 1951, I declare that:—

1. Sri K. Nagappa Alva, 517, Rajamahal Vilas Extension, Sadashivanagar, Bangalore 6.
2. Sri B. P. Nagaraja Murthy, Ragibommanahalli, Malavalli Taluk, Mandya District.
3. Sri Mulka Govinda Reddy, Church Extension, Chitradurga, Mysore State.
4. Sri K. S. Malle Gowda, No. 6, K. R. Road, Basavanagudi, Bangalore-4.

have been duly elected by the elected members of the Mysore Legislative Assembly to fill the seats in the Council of States of the four members retiring on the 2nd April, 1970, on the expiration of their terms of office.

Place: Vidhana Soudha,
Bangalore-1.

K. S. THIMMAPPA GOWDA,

Dated: 28th March, 1970.

Joint Secretary,
Mysore Legislature and Returning Officer."

(11)

Election to the Council of States by the Elected Members of Orissa Legislative Assembly.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Bira Kesari Deo, P.O. Bhawanipatna, District Kalahandi, Orissa.

Surajmal Saha, Advocate, Ganeshghat, Cuttack-2.

Binoy Kumar Mahanti, At/P.O. Biramitropur District Sundargarh.

have been duly elected to fill the seats in that House of three members retiring on 2nd April, 1970 on expiration of their term of office.

Place: Bhubaneswar,

N. RATH,

Dated: 28th March 1970

Returning Officer."
Secretary.
Orissa Legislative Assembly"

(12)

Biennial Election to the Council of States by the Elected Members of the Punjab Legislative Assembly

"In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Inder Kumar, 63, Model Town, Jullundur City;

2. Gurcharan Singh, V. & P. O. Taura, District Patiala; and

3. Bhupinder Singh, Dera Baba Jaga Singh, Gali Telian, Chowk Chintpurni, Amritsar.

have been duly elected to fill the seats in the Council of States of the three members retiring on the 2nd April, 1970, on the expiration of their term of office.

Place: Punjab Vidhan Sabha,
Secretariat, Chandigarh-1.

KRISHEN SWAROOP.

Dated: 25th March, 1970.

Returning Officer.

for Biennial Election to the Council of States by the elected members of the Punjab Legislative Assembly (Secretary, Punjab Legislative Assembly)."

(13)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Rajasthan

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shrimati Narayani Devi/Manaklal, 19/99, Bhopalpura, Udaipur (Rajasthan),

Shri Jagdish Prasad, Vidhayakpuri, Flat No. 2, Jaipur.

Shri Mohamad Usman, Advocate, Chungaron ka Chok, Bikaner.

have been duly elected to fill the seats in that House of three members retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office.

Place: Sawai Man Singh Town Hall,
Jaipur.

B. K. D. BADGEL,
Returning Officer."

Dated: 28th March, 1970.

(14)

Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Tamil Nadu.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Thiru Abdul Samad, 45, Maricar Lebbai Street, Madras-1;
2. Thiru Anandan, 17-A, Bisset Road, Agaram, Madras-11;
3. Thiru Kanchi Kalyanasundaram, B/12/5, Kilpauk Garden Colony, Madras-10;
4. Thiru T. K. Srinivasan, No. P. 3 Block, Lloyds Estate, Madras-14;
5. Thiru S. S. Marisamy, 15-D, Sheony Nagar, Madras-30; and
6. Thiru S. S. Rajendran, 11, H. D. Raja Nagar Teynampet, Madras-18.

have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office.

Place: Madras-9.

C. D. NATARAJAN,

Dated: 28th March, 1970.

Secretary to Government,
Legislative Assembly Department
and
Returning Officer."

(15)

Biennial Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh

"In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Sri Inder Singh, 7/25, Tilaknagar, Kanpur,
2. Sri Uma Shanker Dikshit, 68, Moti Bhawan, Nazarbagh, Lucknow,
3. Sri Kalyan Chand, 33, I.I. Bazar, Cant. Allahabad,
4. Sri Tribhuvan Narain, K-67/110, Ishwarganj, Varanasi,
5. Sri Triloki Singh, Ghosiari Mandi, Lucknow,
6. Sri Dato Pant Thengri, 105/731, Gandhi Chowk, Kanpur,
7. Sri Nawal Kishore, Moh. Katra Pukhta Aonla, Distt. Bareilly,
8. Sri Nageshwar, V. & P. O. Belghat, Distt. Gorakhpur,
9. Sri Mahavir Tyagi, Rain Basera, Dehra Dun,
10. Sri Mahabir Prasad Shukla, V. Raipura, P.O. Madurmakundpur, Distt. Allahabad,
11. Sri Shyam Lal Yadav, C-27/137-6, Rampuri, Jagatganj, Varanasi,

have been duly elected to fill the seats in that House of the eleven members retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of their term of office.

Vidhan Bhawan, Lucknow,

H. C. AGARWALA,

Dated: 28th March, 1970.

Returning Officer for the Election
to the Council of States by the
Elected Members of the Legislative
Assembly of Uttar Pradesh."

(16)

Biennial Election to the Council of States, 1970, to fill the Vacancies to be caused by the Retirement of Five Members Elected by the Elected Members of the West Bengal Legislative Assembly.

"In pursuance of the provision contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Shri Dwijendralal Sengupta of 14, Girish Chandra Bose Road, Calcutta-14,
2. Shrimati Purabi Mukhopadhyay of 108, Manicktola Main Road, Calcutta-54,
3. Shri Bhupesh Gupta of 20/37, Netaji Subhas Road, Calcutta-40,
4. Shri Salil Kumar Ganguli of 50, Ramtanu Bose Lane, Calcutta-6,
5. Shri Sasankasekhar Sanyal of 1/2, Nandy Street, Calcutta-29,

have been duly elected to fill the seats in the Council of States of the five members retiring on the 2nd April, 1970, on the expiration of their terms of office.

Place: 'Assembly House', Calcutta-1.

Dated: 28th March, 1970.

S. BANERJEA,
Returning Officer,
Council of States."

(17)

Election to the Council of States by the Members of the Electoral College of Union Territory, Delhi.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Lal K. Advani, 1-Shahjahan Road, New Delhi.

has been duly elected to fill the seat in that House of a member retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of his term of office.

Place: 5, Alipur Road, Delhi.

Dated: 28th March, 1970.

DESH DEEPAK,
Returning Officer."

(18)

Election to the Council of States by the Members of the Electoral College of Himachal Pradesh.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Roshan Lal, P.O. Sanawar, Tehsil Kandaghat, Distt. Simla.

has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 2nd April, 1970 on the expiration of his term of office.

Place: Simla,

Dated: 28th March, 1970.

JOSEPH DINA NATH,
Assistant Returning Officer,
For Election to the Council of States,
Himachal Pradesh."

[No. F. 13(1)/70-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt. Secy.

विधि मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1970

आ० आ० 1291:—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणाएं, जिनमें राज्य सभा में कुछ सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधियों के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, नई नागरिकों को जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

घोषणाएं

(1)

ग्रामप्रवेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अनाधिकृत उम्मीदवारों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि:—

1. श्री कटरागड्डा श्री निवास राव,
मैपम नवदुर्ग फिल्म्स, गांधी नगर, विजयवाड़ा-3 ;
2. श्री के० एल० एन० प्रसाद, 'बृन्दावन' सूर्यराव पेट, विजयवाड़ा-2 ;
3. श्री बैनीगाला सत्यनारायण, डुंगीराला, तैनाली तालुक, जिला गुंटूर ;
4. श्री बी० बी० राजू, मकान नं० 3-6-643, हिमायत नगर, हैदराबाद-29 ;
5. श्री दामोदरम् संगो रैय्या, श्रम और रोजगार के मंत्रि, नई दिल्ली ;
6. श्री गड्डम नारायण रेड्डी, अध्यक्ष जिला परिषद्,
आदिलाबाद, डाकघर-आदिलाबाद ;

उस सदन में उन छह सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : सभा भवन
पब्लिक गार्डन्स,
हैदराबाद-4

ए० शंकर रेड्डी,
रिटनिंग आफिसर ।”

तारीख : 28 मार्च, 1970

(2)

ग्रामप्रवेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये द्वितीय निर्वाचन

“लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के उपनियमों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्री इमोनसिंग एम० संगमा, अरर कश्यपेरी डाकघर-तुरा जिला-गारो हिल्स और श्री विपिन पाल

मुस, हेम चन्द्र रोड, गोहाटो-1 राज्य सभा में उन दो सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, आसाम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सम्पत्क रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : शिलांग

पी० डी० बरुआ,

तारीख : 28 मार्च, 1970

आसाम से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के रिटर्निंग आफिसर और आसाम विधान सभा के उपसचिव।”

(3)

बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन

“निर्वाचनों का पंचालन, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

1. अब्दुल क़रूम अन्सारी,
1-छजूबाग, पटना-1
2. अबधेश्वर प्रसाद सिन्हा,
गांव और डाकघर-दहिला,
थाना कटरा, जिला मजफ्फरपुर।
3. श्रीकांत मिश्र,
सहरसा, वार्ड नं० 3, डाकघर सहरसा,
जिला सहरसा।
4. सीताराम सिंह,
गांव खुशरबास,
डाकघर महुवा, जिला मुजफ्फरपुर।
5. चौधरी ए० मुहम्मद,
गांव बवियां मुसाबनी,
डाकघर बविया, जिला सिंहभूम।
6. भोला प्रसाद,
किसान मजदूर केन्द्र,
लखीसराय, मुंगेर।
7. शिशिर कुमार,
बाबू बाजार, आरा, शाहाबाद।
8. धर्मचन्द जैन,
चाईबासा, जिला सिंहभूम, बिहार।

उस सदन में उन 8 (आठ) सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्पत्क रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : पटना

तारीख : 28 मार्च, 1970।

इनायेतुर्रहमान,

रिटर्निंग आफिसर और सचिव
बिहार विधान सभा।’

(4)

गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि —

- (1) श्री मनुभाई संसुखलाल शाह, 8, सर्वोदय सोसाइटी, सुरेन्द्रनगर ।
- (2) श्री शामप्रसाद रूपशंकर वासवाड़ा, 23, सरस्वती सोसाइटी, सरखेंज रोड, ऐलिस-ब्रिज अहमदाबाद-7 ।
- (3) श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल, 78, अल्कापुरी, बड़ौदा ।
या
18, डा० राजेन्द्रप्रसाद रोड, नई दिल्ली ।
- (4) श्री देववत्तकुमार कीकाभाई पटेल, बर्ताद, डाकखाना खरवान, तालुका महुवा, जिला सूरत ।

उस सदन में उन चार सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : अहमदाबाद ।

तारीख : 28 मार्च, 1970 ।

डी० जी० देसाई,

रिटनिंग आफिसर ।”

(5)

हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

श्री देव दत्त, मकान नं० 31, सरस्वती मुगर मिल कालोनी, यमुनानगर, जिला अम्बाला ।
उस सदन में उस सदस्य के स्थान को भरने के लिए जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहा है, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान :

हरियाणा विधान सभा,
सचिवालय, विधान भवन,
चण्डीगढ़-1 ।

तारीख : 28-3-70

प्रार० के० मल्होत्रा,

हरियाणा विधान सभा के
निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य
सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन
के लिए रिटनिंग आफिसर ।”

(6)

जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

1. श्री तीरथ राम अमला, विजय निवास, चिनार बाग, श्रीनगर ; और
2. मेहता ओम प्रकाश, वार्ड नं० 1, किशतवार ।

उस सदन में उन दो सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर, 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : जम्मू ।

बंसी लाल जलाली,

तारीख : 28 मार्च, 1970 ।

राज्य सभा के 1970 के निर्वाचन
के लिए रिटर्निंग आफिसर ।”

(7)

केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

1. एस० कुमारन्, मकान नं० 941, थम्पानूर, त्रिवेंदरम् ;
2. के० चन्द्रशेखरन्, एडवोकेट, एरनाकुलम्, कोचीन-11 ;
3. मैथ्यू कुरियन, निदेशक, इण्डियन स्कूल आफ सोसल साइंसेज, वांजीयूर, त्रिवेंदरम् ।

उस सदन में उन तीन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : त्रिवेंदरम् ।

डा० आर० प्रसन्नन्,

तारीख : 25-3-1970 ।

रिटर्निंग आफिसर ।”

(8)

मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विबार्षिक निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

- (1) श्री भवानीप्रसाद तिवारी, 1368, राइट टाउन, जबलपुर (म० प्र०) ;
- (2) श्री चक्रपाणि जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, मकान और पोस्ट बलौदाबाजार, जिला रायपुर ;
- (3) श्री विजय भूषण देवशरण, आराम निवास, जशपुर नगर, जिला रायगढ़ (म० प्र०) ;
- (4) सवाई सिंह मोहम्मद सिंह, टैंगोर मार्ग, बड़नगर, जिला उज्जैन (म० प्र०) ;

- (5) बलराम दास दुर्गादास, नेहरू बस्ती गढ़, रोड, रीवा (म० प्र०) ;
- (6) सर कु० सम्भाजीराव आंग्रे चन्द्रोजी, आंग्रे की गोठ, पोस्ट लखर (गुवालियर) (म० प्र०) ।

उस सदन में उन छह सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधियों के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : मध्य प्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल ।

मदन गोपाल,

तारीख मार्च 18, 1970

रिटनिंग आफिसर ।”

(फाल्गुन 27, 1891) ।

(9)

महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

- (1) चिनाई, बाबूभाई मानिकलाल, म्युनिसिपल हाउस नं० 149, सेण्ट जेम्स कोर्ट, नेताजी सुभाष रोड, मुम्बई-1 ;
- (2) धारिया, मोहन मानिकचन्द, मकान नं० 2064, विजयनगर कालोनी, पुना नं० 30 ;
- (3) बोबाडे, शंकरराव बाजीराव, मकान नं० 376, वाई नं० 26, खामगांव (बुलधाना) ;
- (4) गोरे, नारायण गणेश, 1813, सदाशिव पेठ, पुना-30 ;
- (5) कुलकर्णी, अरविंद गणेश, मकान नं० 2812, शिवाजी नगर, सांगली ;
- (6) सरदेसाई, श्रीनिवास गणेश, 497 डी, रूपराज, सरदार बल्लभभाई पटेल रोड, मुम्बई-4 ;

उस सदन में उन छह सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : कौंसिल हाल, मुम्बई-1 ।

ए० बी० पालेकर,

तारीख : 25 मार्च, 1970 ।

उप सचिव,

महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय,

और रिटनिंग आफिसर ।”

(10)

मैसूर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

“लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

- (1) श्री के० नगप्पा अल्वा, 517, राजामहल विलास एक्सटेंशन, सदाशिवनगर, बंगलौर-6 ;
- (2) श्री बी० पी० नागराज मूर्ति, रागीबाम्मनाहल्ली, मालावल्ली तालुक, जिला मांड्या ;
- (3) श्री मुत्तक गोविन्द रेड्डी, चर्च एक्सटेंशन, चित्तावुर, मैसूर राज्य ;
- (4) श्री के० एस० मल्ले गौडा, नं० 6, के० आर० रोड, दासवनागुडी, बंगलौर-4 ;

* राज्य सभा में उन चार सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधियों के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, मैसूर विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : विधान सौध, बंगलौर-1

तारीख : 28 मार्च, 1970 ।

के. एस. थिम्मप्पा गौडा,

संयुक्त सचिव,

मैसूर विधान मंडल और रिटनिंग आफिसर ।”

(11)

उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

बीरा केसरी देव, डाकघर—भवानीपटना, जिला—कालाहंडी, उड़ीसा ;

सूरजमल साहा, एडवोकेट, गणेशघाट, कटक-2 ;

विनय कुमार महंती, मोकाम, डाकघर बीरामिस्त्रोपुर, जिला सुन्दरगढ़ ;

उस सदन में उन तीन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : भुवनेश्वर।

तारीख : 28-3-70 ।

एन. ए. रघु,

रिटनिंग आफिसर ।

सचिव,

उड़ीसा विधान सभा ।”

(12)

पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन ।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

1. इन्दर कुमार,

63, मॉडल टाउन,

जालन्धर शहर ;

2. गुरचरण सिंह,

ग्राम और डाकखाना—तोरा,

जिला पटियाला ; और

3. भूपिन्दर सिंह,

डोरा बाबा जागासिंह,

गली तेलियान, चौक चिन्तपुरी,

अमृतसर ।

उस सदन में उन तीन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसाम पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यकरूप से निर्वाचित हो गए हैं।

कृष्ण स्वरूप,

स्थान : पंजाब विधान सभा
सचिवालय,
चण्डीगढ़ ।
तारीख : 25-3-1970

पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों
द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवाचिक
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर
(सचिव, पंजाब विधान सभा) " ।

(13)

राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

श्रीमती नारायणी देवी मानकलाल
19/99, भोपालपुरा, उदयपुर, (राजस्थान) ।

श्री जगदीश प्रसाद,
विधायकपुरी, फ्लैट न० 2, जयपुर ।

श्री मोहम्मद उसमान,
एडवोकेट, चूनगरी का चौक,
बीकानेर ।

उस सदन में उन तीन सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसाम पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यकरूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

बी० के० डी० बडगेल,
रिटर्निंग आफिसर

स्थान : सर्वाई मान सिंह टाउन हाल, जापुर ।
तारीख : 28 मार्च, 1970 ।

(14)

तामिलनाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्बिष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि :—

1. थीरु अन्बुल समद,
45, मारीकर लेठबाई स्ट्रीट, मद्रास-1 ;
2. थीरु आनन्दन,
17-ए, बिसेट रोड, अगाराम, मद्रास-11 ;
3. थीरु कंचीकल्यानसुन्दरम,
बी/12/5, किल्पीक गार्डन कालोनी, मद्रास-10 ;

4. थिरू टी० के० श्रीनिवासन,
नम्बर पी 3 ब्लॉक, लाएडस स्ट्रीट, मद्रास-14 ;

5. थिरू एस० एस० मारीसामी,
15-डी, श्रीनाय नगर, मद्रास-30 ;

और

6. थिरू एस० एस० राजेन्द्रन्
11, एच० डी० राजनगर, तेनामपेट, मद्रास-18 ।

उस सदन में उन छः सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यकरूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : मद्रास-9

सी० डी० नटराजन,
सरकार के सचिव,

तारीख : 28 मार्च, 1970 ।

विधान सभा विभाग और रिटर्निंग आफिसर ।

(15)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

1. श्री इन्द्र सिंह, 7/25, तिलकनगर, कानपुर ;
2. श्री उमाशंकर वीक्षित, 68, मोती भवन, नजरबाग, लखनऊ,
3. श्री कल्याण चन्द, 33, आई० आई० बाजार, केन्दुमेन्ट, इलाहाबाद,
4. श्री त्रिभुवन नारायण, के-67/110, ईश्वरगंज, वाराणसी,
5. श्री बिलोकी सिंह, घसियारी मंडी, लखनऊ ।
6. श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी, 105/731, गांधी चौक, कानपुर,
7. श्री नवलकिशोर, मो० कटरा पुख्ता गांवला, जिला बरेली,
8. श्री नानेश्वर, ग्राम और पोस्ट बल्लवाट, जिला गोरखपुर,
9. श्री महावीर त्यागी, रेत बसेरा, देहरादून,
10. श्री महावीर प्रसाद शुक्ला, ग्राम रेपुरा, पोस्ट मदरामकन्दपुर, जिला इलाहाबाद,
11. श्री श्यामलाल यादव, सी-27/137-6, रामपुरी, जगतगंज, वाराणसी,

उस सदन में उन ग्यारह सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

विधान भवन, लखनऊ ।

हरीश चन्द्र अग्रवाल,

तारीख 28 मार्च, 1970

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों
द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के
लिए रिटर्निंग आफिसर ।”

(16)

पश्चिमी बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों की निवृत्ति से होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये राज्य सभा का 1970 का द्वि-वार्षिक निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

- (1) श्री द्विजेन्द्रलाल सेनगुप्ता, 14, गिरीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-14,
- (2) श्रीमती पुरबी मुखोपाध्याय, 108, मानिकगला मेन रोड कलकत्ता-54,
- (3) श्री भूपेश गुप्त, 20/37, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-40,
- (4) श्री सलिल कुमार गांगुली, 50, रामतन् बोस लेन, कलकत्ता-6,
- (5) श्री शशांकशेखर सान्याल, 1/2, नंदी स्ट्रीट, कलकत्ता-29,

राज्य सभा में उन पांच सदस्यों के स्थानों को भरने के लिए, जो अपनी पदावधियों के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहे हैं, सम्यकरूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : 'सभा भवन' कलकत्ता-1

तारीख : 28 मार्च, 1970

एस० बनर्जी,

रिटनिंग आफिसर,
राज्य सभा।”

(17)

संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली के निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

लाल के० अडवानी, 1-शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।

उस सदन में उस सदस्य के स्थान को भरने के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर, 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहा है, सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : 5, अलीपुर रोड, दिल्ली

तारीख : 28-3-1970

वेश वीपक,

रिटनिंग आफिसर”

(18)

हिमाचल प्रदेश के निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि—

रोशन लाल, डाकघर, सनावर, तहसील—कंडाघाट, जिला—शिमला।

उस सदन में उस सदस्य के स्थान को भरने के लिए जो अपनी पदावधि के अवसान पर 2 अप्रैल, 1970 को निवृत्त हो रहा है, सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : शिमला

जोसेफ बीमा नाथ,

तारीख 28 मार्च, 1970।

राज्य सभा के निर्वाचन के लिए सहायक रिटनिंग
आफिसर, हिमाचल प्रदेश।”

[सं० फा० 13(1)70-वि०]

एन० डी० पी० नाम्बूद्रीपाद, संयुक्त सचिव।

